

Presented by:



अदालती शिष्टाचार : अदालत में क्या करें

(सुझाव एवं जानकारी)

क्या आप अदालत में पहली बार आए हैं? काफी लोगों के लिए यह पहली बार ही है. जब आप अदालत में आए तो कुछ याद रखने योग्य बातें और सुझाव यहाँ निम्नलिखित हैं.

अगर आपको लगता है की आपको या आपके गवाह को भाषा अनुवादक की जरूरत है तो यह बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा. यह आपको कोर्ट की तारीख से पहले करना होगा क्योंकि आपके भाषा अनुवादक को पहले अदालत से मंजूरी लेनी होगी. आप ऐसे ही किसी दोस्त या गवाह को अनुवाद के लिए नहीं बुला सकते .

न्यायालय में आने पर:

- अगर आपको न्यायालय में उपस्थित होना है तो कृपया समय से पहले आइये:
- ज्यादातर न्यायालयों में आपको सबसे पहले सुरक्षा स्क्रीनिंग में से जाना पड़ता है
- ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हे न्यायलय में ले कर जाने की इजाजत नहीं है जैसे की कैची, चाकू, हथियार या कोई भी तेजधार वस्तु
- सुरक्षा जांच में कई बार काफी समय लग जाता है
- सुरक्षा जांच के समय आपको अपनी जेब में से सारा सामान निकालने को कहा जायेगा और आपके बैग की तलाशी भी ली जाएगी

अपना न्यायधिक कमरा ढूँढना

सुरक्षा जांच के बाद यह पता कीजिये की आपको कोन से कमरे में होना चाहिए. हर न्यायलय में हर दिन के केसो की सूची होती है. यह जानकारी आपको कमरे के बाहर लगे हुए मॉनिटर पर या कागजी सूची के तौर पर जानकारी डेस्क या सुरक्षा कर्मों के पास भी पायी जा सकती है

अगर आपको यह न मिल पा रही तो कृपया अदालती मुंशी या सुरक्षा कर्मों से तुरंत बात कीजिये. यह सूची में आपको यह बताया जायेगा की आपका मुकददा कौन से कमरे में तथा कितने बजे शुरू होगा. अगर आपको अपना नाम या आपका केस इस सूची में न दिखाई दे तो कृपया अदालत के मुंशी या सुरक्षा कर्मों से कहिये की वो आपकी सहायता करें

जब आपको आपका कमरा मिल जाये तो अंदर जाइए. आप बाहर रह कर प्रतीक्षा न करें क्योंकि अदालत को पता नहीं होगा की आप बाहर हैं और कोई आपको ढूँढने या पता करने के लिए बाहर नहीं आएगा

अदालत के कमरे के बाहर

अदालत के कमरे में खाने पीने की कोई भी वस्तु लाने की आज्ञा नहीं है . कमरे में अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन या अन्य यन्त्र बंद कर दे.

अदालत के कमरे में जाने पर

अगर आपको अंदर जाने पर न्यायाधीश नज़र आये तो आप चुपचाप बैठ जाएँ अगर न्यायाधीश वहां पर अभी उपस्थित नहीं है तो मुंशी को अपना परिचय दे तथा उन्हें बता दे की आप यहाँ पर उपस्थित हैं.

उस दिन अदालत में सुने जाने वाले मुकदमों में से एक मुकदमा आपका है . उस कमरे में सुने जाने वाले केसों की सूची कमरे में मौजूद होगी . मुंशी से कह कर वह सूची पता करें और वह आपको आपका केस ढूँढने में सहायता करें

अगर अदालत की करवाई शुरू हो चुकी है तो मुंशी के पास मत जाइए बल्कि चुपचाप वह सूची जांच करें और बैठ जाएं जबतक की आपके केस की सुनवाई नहीं आती.

अदालत में न्यायाधीशकी उपस्थिति में सारे केस क्रमवार रूप से सुने जाते हैं अगर आपका नंबर सूची के अंत में है आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा. अगर आप अदालती करवाई के दौरान कमरे से बाहर जाते हैं तो हो सकता है की आप अपनी बारी खो दे.

याद रखिएं की न्यायलय तथा अदालती कमरे सरवजनिक हैं - इसका मतलब यह है की कोई भी अदालत में आ सकता है तथा अदालती करवाई सुन सकता है, आपकी भी .

न्यायाधीश को सम्भोधित करना

- अगर आप अदालती करवाई शुरू होने से पहले कमरे में मौजूद हैं तो न्यायाधीश के आने पर खड़े हो जाएं
- जब तक आपके केस की सुनवाई नहीं आती आप खामोशी से बैठें रहे
- जब आपके केस को आवाज़ दें, खड़े हो जाईये, कमरे में आगे रखे हुए मेज़ की तरफ जाएं
- अपना पहला तथा आखिरी नाम न्यायाधीश को बता कर अपना परिचय दें

याद रखने योग्य

- न्यायाधीश को योर ऑनर कह कर सम्भोधित करें
- अगर न्यायाधीश या दूसरी पार्टी बात करें तो आराम से बैठे रहे
- जब आप न्यायाधीश से बात करें तो कृपया खड़े हो कर ज़रा ऊंची तथा स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें
- किसी भी समय पर आप न्यायाधीश अन्य व्यक्ति की बात नहीं काटें. अपनी बारी की प्रतीक्षा करें
- यूँकि न्यायाधीश आपको आपके कानूनी विषय में कुछ सवालों का जबाब दे सकते हैं लेकिन वह आपको आपके केस में कानूनी तौर पर सलाह नहीं दे सकते
- अगर आप न्यायाधीश को कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं तो पहले आपको वह मुंशी को देना होगा
- अपना व्यवहार निम्न एवं सम्मानजनक रखें

Supported by:

Alberta **LAW**
FOUNDATION

Government
of Alberta ■

 alberta
law
libraries